



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 34) पटना, मंगलवार, 8 जनवरी 2019

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

अधिसूचना  
7 जनवरी 2019

सं० एल/एच०जी०-14-23/2018-141—बिहार लोक सेवा आयोग के 56वीं से 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गृह विभाग (विशेष शाखा) के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित-03 (तीन) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक रूप से पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू० 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के रूप में उनके योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवंटित आरक्षण कोटि
1	सुश्री प्रभा कुमारी	पिता—श्री पारसनाथ पाठक, स्थायी पता:— ग्रा० + पो० — हरदिया, भाया—जनकपुर रोड (पुपरी), जिला—सीतामढ़ी-843320	सीतामढ़ी	235	अनारक्षित कोटि-01
2	श्री कृष्णा कुमार,	पिता—श्री राज कुमार वर्मा, स्थायी पता:— मकान सं०-80ए मुहल्ला—आलमगंज (बारादरी), थाना—सासाराम, डाकघर—सासाराम, जिला—रोहतास (बिहार), पिन कोड-821115	रोहतास	256	अनारक्षित कोटि-01

क्र०	नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवृत्ति आरक्षण कोटि
3	श्री अनिल कुमार वर्मा	पिता—स्व० लल्लन वर्मा <b>स्थायी पता:—</b> ग्राम—माइरखास, पो०—विजयीपुर, जिला—गोपालगंज (बिहार), पिन—841508	गोपालगंज	265	पिछड़ा वर्ग—05

- (i) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी।
- (ii) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 3 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किये गये हैं, वे परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वांछित प्रमाण पत्र महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (iv) सभी अभ्यर्थी योगदान/प्रभार ग्रहण के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटो/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र/चल—अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (v) सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवाएँ, बिहार, छज्जुबाग, पटना के समक्ष समर्पित करेंगे।
- (vi) महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवाएँ, बिहार, पटना इन नवनियुक्त जिला समादेष्टाओं से कंडिका (iii) एवं (iv) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरांत उनका योगदान स्वीकार करेंगे एवं उसकी एक—एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उनके प्रशिक्षण हेतु अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश प्रसाद रजक,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 34-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>